

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह-II,
सिविल जज (सिनियर डिविजन),
कक्ष संख्या-18, देवरिया।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
देवरिया।

विषय- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 16044/ IV एफ-
101/ एडमिन (ए) दिनांक 24 -11-2015 के अनुक्रम में प्रार्थी के पासपोर्ट
के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,


ससम्मान निवेदन करना है कि प्रार्थी वर्तमान में सिविल जज
(सिनियर डिविजन) कक्ष संख्या-18 के पद पर जिला देवरिया में कार्यरत हैं। प्रार्थी अपना
पासपोर्ट बनवाने हेतु नियमानुसार पासपोर्ट विभाग में आवेदन करना चाहता है। जिसके
लिए प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अनापत्ति प्रमाण पत्र की
आवश्यकता है।

प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या
16044/ IV एफ-101/ एडमिन (ए) दिनांक 24 -11-2015 के अनुक्रम में चार
नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ तथा नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र इस
प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी को पासपोर्ट का
आवेदन करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

आदर सहित।

भवदीय


03-03-23

(विवेक कुमार सिंह-II)
सिविल जज (सिनियर डिविजन),
कक्ष संख्या-18, देवरिया।

दिनांक-03-03-2023

संलग्नक-

- 1- 4 नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो,
- 2- नोट द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र।

जनपद न्यायाधीश, देवरिया
दिनांक 03-03-23
प्रमाणित

जनपद न्यायाधीश:

देवरिया
03-03-23



UTTAR PRADESH

55AE 640857

I, Vivek Kumar Singh S/o Shri Rajit Singh, Permanent Resident of Village-Moharpur, Post-Ahraura, District-Mirzapur hereby declare-

- (a) that the applicant is a citizen of India
 - (b) that the applicant may not, or is not likely to, engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India
 - (c) that the departure of the applicant from India may not, or is not likely to, be detrimental to the security of India
 - (d) that the presence of the applicant outside India may not, or is not likely to, prejudice the friendly relations of India with any foreign country
 - (e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application, not being convicted by a Court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years
 - (f) that proceedings in respect of any offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a criminal Court in India
 - (g) that a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the applicant has not been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has not been made by any such court
 - (h) that the applicant has not been repatriated
 - (i) that there is no possibility of embarrassing position before Government of U.P. due to the visit of applicant to any foreign country
 - (j) that the issue of 'Identity certificate' for obtaining a passport has never been refused to the applicant
 - (k) that applicant has never visited any foreign country.
- The above mentioned information is true and genuine to the best knowledge of the applicant.

Vivek
03.03.23
(Vivek Kumar Singh)
Civil Judge (Senior Division), Deoria